

भारत सरकार  
पर्यटन मंत्रालय  
राज्य सभा  
लिखित प्रश्न सं. 2226  
गुरुवार, 04 अगस्त, 2022/13 श्रावण, 1944 (शक)  
को दिया जाने वाला उत्तर

केरल में पर्यटन विकास के लिए निधि

2226. श्री अब्दुल वहाब:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को विगत दो वर्षों में पर्यटन क्षेत्र में अवसंरचना, पर्यटन के प्रोत्साहन और विकास संबंधी अन्य कार्यों के लिए निधि मांगने हेतु केरल राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है
- (ग) क्या सरकार ने विगत पाँच वर्षों में पर्यटन क्षेत्र में विकास के लिए केरल राज्य सरकार को कोई निधि प्रदान की है और
- (घ) यदि हाँ, तो आवंटित और उपयोग की गई निधि का पर्यटन क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ): पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्रस्तावों की प्राप्ति एक सतत प्रक्रिया है। प्राप्त प्रस्तावों की निर्धारित दिशा-निर्देशों के संदर्भ में जांच की जाती है और ऐसी परियोजनाओं के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करने, प्रचालनात्मक व्यवहार्यता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पर्यटन मंत्रालय ने 'स्वदेश दर्शन' और 'तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद)' योजनाओं के तहत पर्यटन से संबंधित अवसंरचना विकास के लिए केरल राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

इसके अलावा, आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार योजना (डीपीपीएच) की योजना के अंतर्गत मेलों/उत्सवों और पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए केरल राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

पर्यटन मंत्रालय ने केरल राज्य में पर्यटन से संबंधित अवसंरचना विकास हेतु 'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' योजना के तहत भी परियोजनाएं मंजूर की है।

केरल राज्य के लिए डीपीपीएच योजना के अंतर्गत मेलों/उत्सवों और पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ-साथ पर्यटन अवसंरचना विकास योजनाओं के लिए स्वदेश दर्शन, प्रशाद और केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की सूची अनुबंध में दी गई है।

\*\*\*\*\*

अनुबंध

केरल में पर्यटन विकास के लिए निधि के संबंध में 04.08.2022 के राज्य सभा लिखित प्रश्न प्रश्न संख्या 2226 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में विवरण ।

स्वदेश दर्शन योजना (करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	परिपथ का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	निर्मुक्त राशि
वर्ष 2015-16					
1.	केरल	इको परिपथ	पथानामथिट्टा - गावी - वागामोन - थेक्कडी का विकास	76.55	61.24
वर्ष 2016-17					
2.	केरल	आध्यात्मिक परिपथ	सबरीमाला - एरुमेली - पम्पा-सन्निधानम का विकास ।	106.42	20.00
3.	केरल	आध्यात्मिक परिपथ	श्रीपद्मनाभ मंदिर, अर्नामूला का विकास	78.08	73.77
वर्ष 2018-19					
4.	केरल	आध्यात्मिक परिपथ	शिवगिरी श्री नारायण गुरु आश्रम-अरुविपुरम - कुन्नुमपारा श्री सुब्रह्मण्य - चेम्बजंथी श्री नारायणः नारायणः गुरुकुलम का विकास	69.47	3.88
5.	केरल	ग्रामीण परिपथ	मालानाड मालाबार कूज पर्यटन परियोजना का विकास	80.37	23.77

प्रसाद योजना ( करोड़ रुपये में )

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	अनुमोदित लागत	निर्मुक्त राशि
1.	केरल	गुरुवायुर मंदिर का विकास	2016-17	46.14	36.91

पर्यटन अवसंरचना विकास योजना के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	परियोजनाओं का नाम	केंद्रीय एजेंसी	स्वीकृत राशि	निर्मुक्त राशि
----------	-------	-------------------	-----------------	--------------	----------------

वर्ष 2013-14					
1.	केरल	रेल मंत्रालय के सहयोग से त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन पर पर्यटन सुविधाओं का संयुक्त विकास	रेल मंत्रालय	5.98	4.00
वर्ष 2016-17					
2.	केरल	विलिंगडन द्वीप, कोचीन, केरल पर वॉकवे/प्रोमिनेड का विकास	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	9.01	8.27
3.	केरल	एर्नाकुलम घाट के बर्थ और बैकअप क्षेत्र के उन्नयन के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	21.41	19.13
4.	केरल	भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा साईं त्रिवेंद्रम गोल्फ क्लब में गोल्फ कोर्स के उन्नयन के लिए परियोजना	भारतीय खेल प्राधिकरण	24.65	12.32
वर्ष 2018-19					
5.	केरल	कोचीन पोर्ट कूज टर्मिनल में अवसंरचना का विकास ।	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	1.21	0.97
6.	केरल	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट वॉकवे पर अतिरिक्त पर्यटन सुविधाओं का निर्माण	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	4.66	4.66
वर्ष 2019-20					
7.	केरल	नए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट टर्मिनल में अतिरिक्त अवसंरचना के विकास के लिए सीएफए	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	10.30	8.23

आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार योजना (डीपीपीएच) के तहत मेलों/उत्सवों और पर्यटन से संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रदत्त वित्तीय सहायता

(लाख रु. में)

राज्य का नाम	वर्ष	मेलों और उत्सवों के नाम	स्वीकृत राशि	निर्मुक्त राशि
केरल	2015-16	अखिल भारतीय शिल्प महोत्सव" सर्गोलसव"	12.50	12.50
	2016-17	64 वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस	25.00	25.00
		प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी बोट रेस, कोल्लम	25.00	25.00
	2017-18	गृह प्रवास और ग्रामीण पर्यटन यात्रा बैठक,	35.00	35.00

		एर्नाकुलम ; सर्गलया अंतर्राष्ट्रीय कला और शिल्प महोत्सव, प्रेसिडेंट ट्रॉफी बोट रेस		
	2018-19	66 वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस	25.00	25.00
		सर्गलया अंतर्राष्ट्रीय कला और शिल्प महोत्सव	25.00	25.00
	2019-20	केरल होम स्टे और टूरिज्म सोसाइटी द्वारा होम स्टे और रूरल टूरिज्म ट्रेवल मीट	10.00	10.00
		67 वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस	25.00	25.00
		9 वां सर्गलया अंतर्राष्ट्रीय कला और शिल्प महोत्सव	15.00	15.00

\*\*\*\*\*